

## बोलने का अधिकार (Right to Speak)

000 800 440 1286 या <https://wrs.expolink.co.uk/wpp>

WPP और इसकी कंपनियों में काम करने वाले हरेक व्यक्ति को कोई भी मुद्दा उठाने में सहज महसूस करना चाहिए — उदाहरण के लिए यदि आपको लगता है कि WPP नीतियों या WPP आचरण संहिता का उल्लंघन हुआ है, तो आप आवाज उठा सकते हैं।

सर्वप्रथम आपके द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले व्यक्ति या किसी मैनेजर से आपकी किसी भी चिंता के बारे में चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, हम समझते हैं कि कभी-कभी यह संभव नहीं हो पाता है, मगर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास हमेशा आवाज उठाने का उचित जरिया मौजूद हो।

WPP कर्मचारियों, फ्रीलांसरों, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य तीसरे पक्षों को, WPP या इसकी ऑपरेटिंग कंपनियों की व्यापार प्रथाओं या व्यवहार संबंधी मुद्दों को रिपोर्ट करने के लिए — Right to Speak — एक मुफ्त, गोपनीय हेल्पलाइन प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र रूप से संचालित सेवा है जो ऐसे व्यक्ति की गुमनामी की रक्षा करती है जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है।

### Right to Speak का प्रयोग करते हुए मैं किस प्रकार के मुद्दे उठा सकता/सकती हूँ?

Right to Speak ऐसी किसी भी चिंता को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको नहीं लगता कि आप सीधे मैनेजरों के समक्ष उठा सकते हैं — चाहे वे अनुचित व्यापार व्यवस्था, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, संदिग्ध भ्रष्ट प्रथाओं, कथित रिश्त, धोखाधड़ी के बारे में हों या स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब आपको लगे कि लोगों के साथ अनुचित तरीके से व्यवहार किया जा रहा है — उदाहरण के लिए भेदभाव, धमकाने या उत्पीड़न के मामले।

### Right to Speak लाइन के जरिये मैं किसी मुद्दे को कैसे रिपोर्ट कर सकता/सकती हूँ?

Right to Speak लाइन का उपयोग स्वैच्छिक और पूरी तरह से गोपनीय है। यह सेवा दिन में 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध है:

000 800 440 1286 या <https://wrs.expolink.co.uk/wpp>

Right to Speak का प्रबंधन Expolink द्वारा किया जाता है, जो WPP से असंबद्ध एक तृतीय पक्ष है। WPP हेतु Right to Speak का संचालन Expolink द्वारा वैश्विक स्तर पर और कई भाषाओं में किया जाता है।

कृपया ध्यान दें:

1. जब आप Right to Speak को कॉल करते हैं तो आपको अपना नाम देने की आवश्यकता नहीं है (जब तक कि आप खुद ऐसा न चाहें);
2. आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं की जाएगी;
3. Expolink द्वारा आपकी शिकायत WPP की कानूनी टीम के किसी वरिष्ठ सदस्य को आगे बढ़ा दी जाएगी;
4. आपके कॉल से संबंधित कोई भी जानकारी WPP द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद Expolink द्वारा उसे सहेजकर नहीं रखा जाएगा।

यदि आप Right to Speak लाइन का उपयोग करते हुए किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी चिंता इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं:

<https://wrs.expolink.co.uk/wpp>

जो भी मुद्दा उठाया गया हो, चाहे हेल्पलाइन या ऑनलाइन के जरिये, उसमें पूरी गोपनीयता बरती जाएगी, और तुरंत व समग्र रूप में उसकी समीक्षा की जाएगी और जहाँ भी जरूरी हो, उचित जाँच की जाएगी।

#### अन्य जानकारी

मुद्दों को रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की बदले की कार्रवाई WPP बर्दाश्त नहीं करता है। लोग किसी प्रतिशोध की आशंका से मुक्त होकर अपनी जायज चिंताओं को निडर उठा सकें, ऐसा एक सुरक्षित व गोपनीय तरीका प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

यदि आप कोई मुद्दा उठाते हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि, कानूनी वजहों से, हम आपको यह रिपोर्ट प्रदान नहीं कर सकते कि किसी उत्तरवर्ती जाँच का समापन किस रूप में हुआ है।

WPP की आचरण संहिता यहाँ देखी जा सकती है:

<http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/>